

GOVERNMENT OF INDIA

 दिल्ली राजपत्र
 सत्यमेव जयते
 Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 13] दिल्ली, सितम्बर 21—सितम्बर 27, 2018, बृहस्पतिवार/भाद्र 30—आश्विन 5, 1940
 No. 13] DELHI, SEPTEMBER 21—SEPTEMBER 27, 2018, THURSDAY/BHADRA 30—ASVINA 5, 1940

भाग II-II

PART II-II

सर्किट, सिविल और दण्ड न्यायालय द्वारा जारी की गई सूचनाएं

Notices of the Circuit, Civil and Criminal Courts

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में

(मूल कंपनी न्यायाधिकरण)

कंपनी याचिका संख्या 273/2015

कंपनी अधिनियम, 1956 के मामले में

तथा

निम्नलिखित के मामले में

ल्लोपैक पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड

...याचिकाकर्ता

विरुद्ध

विद्या इलेक्ट्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड

...प्रतिवादी

याचिका का विज्ञापन

एतद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 तथा 434 के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा तिथि 14-05-2015 में उपरोक्त प्रतिवादी कंपनी को समाप्ति (वाइडिंग अप) हेतु एक याचिका ल्लोपैक पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, 21/31 और 22/31, ततारपुर जाटोला रोड, विलेज जाटोला, डिस्ट्रिक्ट पलवल, हरियाणा जो की प्रतिवादी कंपनी का लेनदार है, द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी।

माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 18-05-2017 सी.पी. संख्या 273/2015 में शासकीय समापक को कंपनी के अंतरिम परिसमापक नियुक्त किया है और याचिका का विज्ञापन प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। याचिका में सुनवाई की अगली तारीख 28.09.2018 के लिए तय की गई है।

कोई लेनदार, अंशदायी अथवा अन्य व्यक्ति कथित याचिका में समर्थन या आपत्ति का इच्छुक कोई अन्य व्यक्ति स्वयं की इच्छा की सूचना कार्यालय अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करनी चाहिए तथा इस प्रकार सूचना कार्यालय अधोहस्ताक्षरी को याचिका की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि अर्थात् 28.09.2018 से पूर्व 5 दिनों से अधिक विलम्ब नहीं पहुंचना चाहिए तथा उक्त प्रयोजन हेतु स्वयं व्यक्ति रूप में अथवा स्वयं के अधिवक्ता द्वारा सुनवाई में उपस्थित होना चाहिए। याचिका की एक प्रति कार्यालय अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त लेनदार तथा अंशदायी को निर्धारित शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध की जाएगी।

कोई शपथ पत्र याचिका हेतु प्रतिवाद में उपयोग हेतु इच्छुक न्यायालय में निर्धारित सुनवाई तिथि से पूर्व 5 दिनों से अधिक विलम्ब नहीं प्रस्तुत करना चाहिए इसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी देना चाहिए

हस्ता./-

(डी.के. सिंह)

शासकीय समापक

माननीय उच्च न्यायालय,

दिल्ली से संबद्ध

स्थान : नई दिल्ली.

दिनांक :

8वां फ्लोर, लोकनायक भवन

खान मार्किट, नई दिल्ली-110003,

फैक्स : 24693314

फोन न. 011 24693393

[विज्ञापन-ए/II/II/14/18]

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

(ORIGINAL COMPANY JURISDICTION)

C.P. NO. 273/2015

IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 1956

AND

IN THE MATTER OF:-

Snowpack polymers pvt. Ltd.

...Petitioner

Versus

Vidya Eletrotech Pvt.Ltd.

...Respondent

ADVERTISEMENT OF PETITION

Notice is hereby given that a petition under Section 433 and 434 of the Companies Act, 1956 for the winding up of the above Respondent Company by the Hon'ble High Court at New Delhi on 14-05-2015 was presented to the Hon'ble High Court by Sonowpack Pvt. Ltd. 21/13 and 22/31, Tatarpur, Jatola Road, Village Jatola, District Palwal, Haryana creditor of the Respondent Company.

The Hon'ble High Court of Delhi vide order dated 18-05-2017 passed in C.P. No. 273/2015 appointed the Official liquidator as the provisional liquidator of the company and directed the Official Liquidator to publish the advertisement of petition. The next date of hearing in the said petition is fixed for 28-09-2018 at 10:30 AM.

Any creditor, contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the under mentioned notice of his intention signed by him or his advocate with his name and address so as to reach the under mentioned not later than 5 days before the date fixed for the hearing of the petition i.e. 28-09-2018 and appear at the hearing for the purpose in person or by his advocate. A copy of the petition will be furnished by the under mentioned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same.

Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in Court and a copy served on the under mentioned not less than 5 days before the date fixed for the hearing.

Sd. /-

(D.K.SINGH)

OFFICIAL LIQUIDATOR

ATTACHED TO HIGH COURT OF DELHI

LOK NAYAK BHAWAN, 8TH FLOOR,

KHAN MARKET, NEW DELHI-110 003

PH. No. 01124693393 FAX : 24693314

[ADVT.A/II/II/14/18]

PLACE: NEW DELHI

DATED: